

STL GLOBAL LIMITED

Plot No. 207-208, Sector-58, Faridabad Haryana (INDIA) Tel.: 0129-4275900 - 4275930, Fax: 0129-4275999 E-mail: info@stl-global.com Website: www.stl-global.com CIN: L51909DL1997PLC088667

Date: 28th August, 2020

From: STL Global Limited

Scrip Code: 532730

To
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai 400 001, MH

Sub: Submission of copy of Newspaper Advertisement for 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Company through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

Dear Sir/Madam,

With reference to above captioned subject, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisements published on 28th August, 2020 in Veer Arjun (Hindi) circulating in Delhi and in Mint (English) in all the editions, further both newspapers having electronic editions, in terms of Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter alia, intimating that 23rd AGM of the Company will be held on Tuesday, 29th September, 2020 through VC/OAVM.

Hope you find the same in order. Kindly take the above information on your record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For STL Global Limited

Manil Kr. Naga **
(Company Secretary)

Encl: As Above

SBI case triggers FinMin directive

PSBs asked to monitor cases for individual bankruptcy

Jayshree P. Upadhyay

he finance ministry has asked public sector banks to put in place a mechanism to monitor cases where they might need to file individual insolvency petitions against personal guarantors.

This directive comes after State Bank of India (SBI) approached the National Company Law Tribunal (NCLT) to initiate a similar case against Reliance Group chairman Anil Ambani in which he guaranteed loans of ₹1,200 crore from SBI for Reliance Communications Ltd and Reliance Infratel Ltd, which later turned non-performing.

In a notification on 26 August, a copy of which has been seen by Mint, the department of financial services said

that the Insolvency and Bank-**DEPT** of financial r u p t c yservices said that the IBC rules empower (Application to Adjudicating insolvency filings Authority

for Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019, empowers creditors to file insolvency applications against personal guarantors to

corporate debtors. "In this connection, banks



This directive comes after SBI approached the NCLT to initiate a case against Reliance Group chairman Anil Ambani.

may consider putting in place a mechanism to monitor cases that may require initiation of individual insolvency process before NCLT against personal guarantors to corporate debtors," the notification said.

Banks may also consider setting up IT systems to collate

UNDER SCRUTINY

setting up IT systems to collate data

regarding guarantors

of action more proactively,

according to experts.

"The corporate insolvency resolution process commenced against corporate debtors have either yielded a resolution or resulted in the liquidation of such corporate debtors. In most cases, there has always been a gap between

the amounts recovered by the len-BANKS can consider LENDERS can also ders and the put a mechanism in a m o u n t s place to monitor owed to cases before NCLT them by the corporate debtor," said

data regarding personal guar-Ajay Shaw, partner, DSK antors in all such cases for the Legal. The advisory, he said, requisite follow-up and consewould prompt personal guarquential action, it said. antors to attempt a compro-The finance ministry directmise with lenders either under ive could nudge public sector the repayment plan or a onebanks to consider this course time settlement.

shayan.g@livemint.com

COVID NUMBERS: A SNAPSHOT & SOME QUESTIONS



Respond to this column at

bit.ly/3jhK9de

' e're six months into this corona pandemic in India. "Normal" life has resumed to varying extents: shops are open, our nearby tennis courts have not; people throng seaside promenades for walks, the police clear them off by 7pm; you can eat your favourite restaurant's fare, but not on the premises.

So while there's still need for caution, you can't keep an economy on lockdown indefinitely. But since so much about a pandemic has to do with data, what do we learn from the data today? What do the numbers tell us about how we've coped?

In this column, purely from the covid numbers. a few random observations and reactions.

* Odisha's health minister Naba Kishore Das pronounced recently that the state's "low fatality rate (due to covid) reflects our success in managing the pandemic." That's partly true: Odisha's highest single-day death-by-covid count is just 16, on 10 August. Since then, it has hovered around 10. But Odisha's chief minister Naveen Patnaik made the same point on 28 May-his state's mortality rate, he told us, "was one of the lowest in the world." At that time, Odisha's number of daily deaths was between zero and two - not 10, not 16 - and that rock-bottom level continued till the end of June. But then, it rose steadily to 16. Why?

*Those death counts must be compared to case counts to determine the fatality rate. Doing that, we find both Odisha ministers were right; the fatality rate is low indeed. But that masks something else about Odisha's brush with covid. The count of new cases there was also relatively small for a long time: from the beginning of March till the end of June, it had risen only to about 200 every day. (At the end of June, Maharashtra was adding about 5,000 cases every day—25 times Odisha's count).

But on 3 July, Odisha's new case count more than doubled to 561. Since then, there's been a steady and relentless rise, with an occasional leap upwards. Odisha's case count is now increasing at nearly 3,000 a day. (Maharashtra is at about 14,000 a day, less than 5 times Odisha's count). Why this steep rise? Could it be because Odisha allowed a Jagannath Yatra to take place in late June, days before the 3 July leap?

Delhi was the first state in the country—for weeks, the only one—whose daily new case count

peaked. That peak was 3,947 cases, on 23 June. Since then, Delhi numbers have declined steadily. Are there lessons for the rest of the country? Possi bly. Only, the decline seems to have stalled, or flattened out. Since the beginning of August, daily counts are between 1,000 and 1,500, maybe even trending slightly upwards. Why?

*Still, no longer is Delhi's a solitary peak. Other states may have peaked as well. Take Tamil Nadu. New cases were at nearly 7,000 on 27 July, declined after that and the count has been steady at about 6,000 since: a month at 6,000. It's good that number isn't increasing, but why isn't it decreasing? For as a peak, this one is long and flat.

*Then there's Andhra Pradesh. After a high of 10,820 cases on 9 August, the tide seemed to be turning, but not definitively. 17 August saw about 6,800 cases, but an uptick since has brought a new high of 10,830 on 26 August. Is the uptick temporary? Was the peak a false one?

*Biharmay be over the hump. For a long time, this state seemed to have escaped the full force of the pandemic. Even in the first week of July, new case counts were 250-300 a day. But then there was a tripling in five days, a ten-fold increase in a month, to 4,000 new cases on 11 August. But since then, daily numbers have dropped to about 2,000.

* And there's Assam. It had a peak of nearly 4,600 new cases on 12 August, though that is a clear outlier. That's

Goa and Punjab are the only other states that are hinting at having peaked

because on the days just before and after 12 August, Assam saw numbers like 2,700-2,800. Besides, the upward trend in the weeks before, and the downward trend afterwards, suggest a peak of about 3,000 that day; so 4,600 was indeed

an aberration. New cases have now dropped below 2,000 a day, so Assam may have peaked as well. $\hbox{``Goa and Punjab are the only other states that}\\$ may have peaked.

*Telangana reported zero new cases on 26 July That's an obvious mistake, because there were about 1,500 cases on both 25 July and 27 July, and it's been broadly rising since then (nearly 2,500 on 22 August, an all-time high). Every other tracked number for Telangana — the deaths, the recoveries, the number tested-stayed stubbornly at zero that day. Why that, and why has it not been corrected? I have found just one news report that mentions this, and it says simply that "Telangana did not disclose its numbers that day.'

Has this had any effect on overall trends? Not really. About 1,500 missing cases doesn't seem like a lot, given that Telangana was testing about 15,000 of its citizens every day at the time, and is

Smart City Development Limited" Tender ID: 422447

Tender No. WaterSCADA/DSCDL/01/August-2020-21

Last Date for online Submission of Tender Document Date/Time

reason thereof. This Tender notice shall form a part of contract document.

E-Tender Notice DAHOD SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED Dahod Smart City Development Limited (DSCDL) invites online E-Tenders for "Request for Proposal (RFP)

for Design, Supply, Installation, Testing(SITC), Operation & Maintenance of Instrumentation & Smart Water SCADA System for Existing Filtration Plant, Bulk Water Supply & Distribution Network for Dahod

GENERAL INSTRUCTIONS: (1) The tender document for this work can be downloaded from website

www.nprocure.com. (2) Other Details of NIT shall be seen on website. (3) Copy of Technical Bid including

all drawings, data sheets and duly filled up formats excluding the Financial Bid along with original Tender

Fee and Bid Security to be submitted to the Chief Executive Officer (DSCDL), Jilla Sewa Sadan, Chhapri,

Dahod-389151, by RPAD/ speed post only on or before Date: 05/10/2020 up to 17.00 Hrs. Chief

Executive Officer, DSCDL reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any

now testing nearly 40,000 every day; given too that we are well past the 3 million mark for total cases nationwide. But it remains a mistake, a statis tical aberration. Will it ever be fixed?

*At the end of July, Gujarat briefly held out hope that its rise in cases had peaked. Daily numbers started declining from about 1,150. But that didn't last long. Within a few days, they started climbing again and are now back to that apparent peak. These numbers and trends should be seen in the light of a report from 23 August. It said that since March, the Gujarat health department has distributed a homeopathic drug called Arsenicum Album-30 to 34.8 million people in the state – more than half the state's population—as a prophylaxis against covid-19. Now the graph of Gujarat's daily cases since March is a steady increase that hasn't really slowed at all, that false peak notwithstanding. That itself tells the story of just how effective this prophylaxis has been. But even the report underlines this: "There is no scientific evidence that the drug works against covid-19, a fact stressed not only by medical scientists but by some homeopathic practitioners themselves." Why did the Gujarat government decide to hand out ineffective pills to so many people in that state?

*As a whole, India is now adding about 65,000 new covid cases a day. If that sounds like a lot, remember it's a daily increase of just over 2% There's been a long decline in this growth rate. (Through July, for example, it hovered at around 3.5%.) The decline means there's a peak coming, though I can't predict when.

In the meantime, let's remember: even at 2%, this remains exponential growth, and thus worry ing. Besides, remember too that over 3 million Indians have been infected. Nearly 60,000 have died. These numbers put us at or near the top of world covid rankings. We are #1 in daily new cases, will likely overtake Brazil to #2 in total cases by mid-September, will likely overtake Mexico to #3 in deaths today. Yet it isn't because of the rankings that all this should be alarming — the numbers themselves do that job. Covid has killed far more Indians than, for example, terrorism has managed to do in all our independent years.

Yet the absence of any significant outcry against this carnage suggests that we have — and maybe our government has — decided that, in Donald Trump's famous recent words, "it is what it is." Nearly 200,000 Americans killed by covid, yet he believes that his government has fought the disease and won. Will nearly 60,000 Indians killed by covid persuade us Indians any differently?

Questions, questions.

Rs. 7,500,000/-

28/09/2020 upto 17.00 Hrs

Rs. 18.000/-

All data from covid19india.org

Once a computer scientist, Dilip D'Souza now lives in Mumbai and writes for his dinners. His Twitter handle is @DeathEndsFun

Personal bankruptcy proceedings against Anil Ambani stayed

Prathma Sharma & Jayshree P. Upadhyay

NEW DELHI/ MUMBAI

elhi high court on Thursday stayed personal bankruptcy proceedings against Anil Ambani, chairman of Reliance Group, even as it restrained him from selling or transferring any of his personal assets.

relief for Ambani, who had moved the high court on Wednesday against the appointment of a resolution professional (RP) on personal guarantees given to State Bank of India (SBI) for securing corporate loans.

The stay order comes as a

Ambani had challenged the validity of the section pertaining to personal guarantee and asked if there is any enabling provision in the Insolvency Bankruptcy Code (IBC) for such an order.

"The proceedings would continue in relation to the cor-

porate debtor (companies) and A division bench while dealing on Thursday said with those proproceedings ceedings, the liaagainst the bility of the peticorporate tioner (Ambani) debtors will may also be continue examined by the IRP. However, the proceedings

against the petitioner under Part-III of the IBC shall remain stayed," the order said.

SBI had lent ₹1.195 crore to Reliance Communications Ltd (RCom) and Reliance Infratel Ltd (RITL) in 2016, with Ambani standing as personal guarantor for the loan. However, both RCom and RITL defaulted. SBI in March filed an application against Ambani for insolvency under part III of IBC rules, which pertain to application for insolvency proceedings for personal guarantors to the corporate debtor.

A division bench of justice Vipin Sanghi and justice Raj-



Anil Ambani had moved the HC against the appointment of a resolution professional in the SBI loan case.

nish Bhatnagar on Thursday said proceedings against the corporate debtors will continue and issued notice to the central government, SBI and others.

The matter will be heard next on 6 October. An email sent to a spokes-

person for Ambani remained unanswered till press time. The National Company Law Tribunal under section 95 of IBC

personal bankruptcy against Ambani on 20 August declared that he did furnish his personal guarantee for the loans, and appointed

> Jitender Kothari as RP. The Thursday order is on the basis of an 8 August stay order passed by the Delhi HC, in a case where a businessman and a personal guarantor had said personal bankruptcy proceedings under IBC was ultra

Senior advocate Neeraj Kaul appearing for SBI argued the two cases are different. "Today, if the lordship will stay part three of the IBC proceedings, then automatically, CIRP (corporate insolvency resolution process) comes to a stay,"

prathma.s@livemint.com

Labour panel to assess impact of govt schemes

Gyan Varma & Anuja

he parliamentary standing committee on labour is set to scrutinize the effectiveness of social welfare schemes, including the National Democratic Alliance (NDA)-led Union government's ambitious health programme, Ayushman Bharat Yojana, and the Aarogya Setu app, in containing the covid-19 pandemic, especially among migrant workers.

The panel, which will meet on 31 August, has summoned officials of central ministries to assess the impact of the schemes before submitting its report to

Lok Speaker Om Birla, ahead of the monsoon session of Parliament, which is set to begin in

the second week of September. "We plan to understand how the Ayushman Bharat programme helped people during this health crisis. We also want to understand the insurance scheme of the Union government and how people have benefitted from it in the last few

VOIG5

Fresh Tender Work

Job No.

55/GM(R)/

S.M.(E&M)-II/

2020-21/ET

56/GM(R)/

2020-21/ET

months, especially during the nationwide lockdown," said a erson who is part of the parlia mentary committee, seeking

anonymity. impact of government proaffairs, food and public distrihad appeared before the panel.

Monday's meet will scrutinize effectiveness of and the Aarogya Setu app during

E-TENDERS NOTICE

E-Tenders are invited from eligible contractors/firm for the following jobs

against which bids can be uploaded and same shall be opened

downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of a

tenders are available on Noida Authority's official website

www.noidaauthorityonline.com & https://etender.up.nic.in. Please

ensure to see these websites for any changes/amendments

The above tenders can be uploaded by dated 10.09.2020 upto 5.00

PM. shall be opened/downloaded on dated 11.09.2020 at 11.00 AM.

Providing & Installation of

at sport Complex Building

sector-21A, Noida.

S.M.(E&M)-II/ Internal roads of Sector-66 & 67

Stadium and Shooting Range

M/o Street lights at Main roads 8

& Pusta road, sector-63A, Noida

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

Passenger lift for Indoor

Name of Work

Sabha

This is not the first time that members of the standing committee on labour have invited ministries to scrutinize the grammes after the covid-19 outbreak. Earlier, officials of the ministries of consumer bution (MCAFPD), and labour,

"This will be the

final meeting with

the officials of the

ment before the

final report is sub-

Union govern-**Ayushman Bharat** the pandemic

mitted. The report will focus completely on migrant and unorganized sector labourers during covid-19 and the nationwide lockdown," he said.

MCAFPD officials will also brief the panel on the impact of the free foodgrain distribution scheme on migrant workers and poor households. Monday will be the fourth meeting of the labour panel related to issues of fallout of the pandemic.

gyan.v@livemint.com

Tender Amoun

(Rs. Lacs)

207.01

85.36

General Manager, Noida

UBILANT

INDUSTRIES

JUBILANT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L24100UP2007PLC032909 Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha-244 223, Uttar Pradesh Ph.: +91-5924-267200 Email: investorsjil@jubl.com

Website: www.jubilantindustries.com

NOTICE

Tender Fee (In Rs.)

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 3, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the guarter ended June 30, 2020 (the 'Financial Results')

A copy of this Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website www.jubilantindustries.com and the website of the Stock Exchanges - NSE: www.nseindia. com and BSE: www.bseindia.com

For Jubilant Industries Limited

Place: NOIDA Dated: August 27, 2020

Abhishek Mishra Company Secretary

NOIGS

E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from eligible firms/contractors for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/ downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & https://etender.up.nic.in. Please ensure to see these websites for any changes/amendments/corrigendum etc

1. 16/SM(JaI)-II/ET/20-21. M/o Sewerage (Desilting of deep sewer line by super sucker machine in Sec-52, 53, 61 Gijhore) Noida. Cost - Rs. 81.87 Lacs.

The above tenders can be uploaded by date 03.09.2020 upto 5.00 PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on date 04.09.2020 at 11.00 AM.

OFFICE SECTOR-37 (YOGENDRA KUMAR) SENIOR MANAGEŔ (JAL)-II, NOIDA

CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

STL GLOBAL LIMITED CIN: L51909DL1997PLC088667 Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1 STL. Global First Floor, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com, Website: www.stl-global.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Compan (23rd AGM) will be convened on Tuesday, 29th September, 2020 at 10:00 A.M. IST through Video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) Facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rule framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 read with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020 respectively, issued b the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May 2020 issued by the SEBI (SEBI) Circular), without the physical presence of the Members at a common venue

The Notice of the 23rd AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 including the financial statements for the year ended 31st March, 2020 will be sen only by email to all those members, whose email addresses are registered with the company or with their respective Depository Participants ("Depository"), accordance with the above-mentioned MCA Circular/s and the SEBI Circular Members can join and participate in the 23rd AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the 23rd AGM and the manner of participation in the remot electronic voting or casting vote through the e-voting system during the $23^{\circ}AGM$ are provided in the Notice of $23^{\circ}AGM$. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum unde Section 103 of the Companies Act 2013. The Notice of the 23rd AGM and the Annua Report will also be available on the website of the Company i.e. www.stl-global.com and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. And on the website of NSE a

 $www.nseindia.com\,respectively\,in\,due\,course.$ Members holding shares in physical form who haven't registered their ema addresses with the Company/Depository can obtain Notice of the 23rd AGM, Annua Report and/or login details for joining the 23rd AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to

investors@stl-global.com: a) A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address

b) self attested scanned copy of PAN Card; and c) self attested scanned copy of any document (such as AADHAR CARD, Driving License, Election ID Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the company.

Members holding shares in demat mode are requested to update their email address Electronic Bank Mandate with their respective Depository.

The above-mentionedinformation is being issued for the information and benefit of all mbers of the company and is in the compliance with the MCA circulars/ SEBI Circular By order of the Board

For STL GLOBAL LIMITED

Saniiv Kumar Aggarwa (Whole Time Directo

Place: Faridabad Date: 27.08.2020 DIN: 0022725

पूरी कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए: आजाद

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर अभी हाल ही में संपन्न सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद यह उनका पहला बयान है।

आजाद ने कहा, कांग्रेस के आंतरिक कामकाज में जिस किसी की भी वास्तविक रुचि है, वो हमारे इस प्रस्ताव का स्वागत करेगा कि हर राज्य और जिले का अध्यक्ष निर्वाचित हो। पूरी कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मंशा कांग्रेस को मजबूत करने की थी। आजाद ने कहा, मैं पिछले 34 साल से वर्किंग कमेटी में हूं। जिनको



पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। (एएनआई)

कुछ भी नहीं मालुम और अप्वॉइंटमेंट वाला कार्ड मिल गया है वो सब विरोध करते हैं, वो सब बाहर जाएंगे। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी सहित 23 नेताओं ने कांग्रेस के संगठन में व्यापक बदलाव, सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर हाल ही में सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इसको लेकर बडा विवाद खडा हो

गया था। इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने सोमवार (24 अगस्त) को करीब सात घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद सोनिया गांधी से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया और उन्हें जरूरी संगठनात्मक बदलाव के लिए अधिकृत किया। पार्टी के 23 नेताओं की ओर से नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया को लिखे गए पत्र से खडे हए विवाद की पृष्ठभूमि में हुई यह बैठक हंगामेदार रही और इसमें तकरीबन सभी नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताया। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई ने नेताओं को कांग्रेस का अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखने के लिए अपनी बातें पार्टी के मंच पर रखने की नसीहत दी और कहा कि किसी को भी पार्टी एवं इसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमित नहीं दी

अजन

C-38165

C-38165

C-38165

(2014)

270125153004

वगीकृत विज्ञापन

Change of Name

Kanta W/o Vikash Singh

R/o 20/68 Trilokpuri Delhi,

have changed my name to

Sumita for all future purposes.

Babu Lal S/o Kamala Singh

R/o 20/68 Trilokpuri Delhi,

have changed my name to

Vikash Singh for all future

Lost & Found

Aditya Gujjar S/o Surendra

Chaudhary R/o KH.No.-498

Girgijiya Mohalla Near SBI

Delhi-110094, have lost my

original 10th class certificate

Roll no. 5190976, Passing

year 2014 and 12th Certificate

Marksheet, and Migration

Certificate Roll No-9132643

Passing year-2017 from

खोया 🕂 पाया

मेरा दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र

अंकतालिका CBSE द्वारा जारी

बाहरवीं का प्रमाण पत्र, अंकतालिका

(2018) (NIOS) एवं माइग्रेशन

सर्टिफिकेट वास्तव में खो गये हैं ी

अनक्रमांक 8613099

Village Sabhapur

purposes.

Bank.

CBSE Board.

अनक्रमांक

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए आर लक्ष्मणन का निधन

चेन्नई, (भाषा)। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं भारतीय विधि आयोग के पूर्व प्रमुख न्यायमूर्ति ए आर लक्ष्मणन का दिल का दौरा पडने के बाद अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी।वह 78 साल के थे और बुधवार को रात साढ़े 11 बजे तिरुचिरापल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके परिवार में दो बेटे और दो बेटियां है। न्यायमूर्ति लक्ष्मणन के बेटे एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एआरएल सुरंदरेसन ने कहा, बुधवार को सुबह 11 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें कराईकुडी के एक अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर की गयी और फिर उन्हें तिरुचिरपल्ली के एक अस्पताल में

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री लिये पुरस्कार की कोई योजना शुरू पोखरियाल निशंक ने कर सकते हैं। विचार विमर्श के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि आने वाले हमने तय किया है कि आने वाले समय में उर्दू के क्षेत्र में उत्कृष्ठ लेखन समय में हम हर वर्ष पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार उन कलमकारों कर पीढियों को प्रेरित करने वाले कलमकारों के लिये पुरस्कार शुरू के लिये होगा जो अच्छा लिख रहे हैं, किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे है तहत अमीर खुसरो लाइफटाइम और जिनकी लेखनी से पीढियों को एचीवमेंट पुरस्कार हर वर्ष दिया प्रेरणा मिलती है।

को ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान में उन्हें विस्फोट की ट्रेनिंग दी गई थी। में शामिल इकलौती महिला आतंकी

एनआईए की जांच में अब इस मामले

धरोहर राशि

₹ 38,800/-

(अडतीस हजार

906/20(D)

अनुमानित लागत

₹ 19.39.920/

(उद्मीस लाख उन्तालीस

मेक-Memag) की खरीब और हजार नौ सौ बीस केवल) आठ सौ केवल)

उर्दू में उत्कृष्ट लेखकों के लिए पुरस्कार योजना शुरू होगी : निशंक

खसरो लाइफटाइम एचीवमेंट निशंक ने विश्व उर्दू वेबिनार में इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया के पुरस्कार हर वर्ष दिया जायेगा। इसके युग में उर्द लेखकों की जिम्मेदारी अलावा मिर्जा गालिब, आगा हश्र कश्मीरी, रामबाबू सक्सेना, प्रेमचंद विषय पर अपने संबोधन में यह घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने के नाम पर पुरस्कार प्रदान किया उर्दू परिषद के कार्यो की जायेगा। निशंक ने कहा कि श्रेष्ठ समीक्षा करते हुए मैंने अधिकारियों पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया के समक्ष यह बात रखी की क्या हमें जायेगा और अगले वर्ष उर्दू का

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए मुख्य कारखाना प्रबंधक वैंगन रिपेयर

झांसी, उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा वैगन रिपेयर कारखानाझांसी में निम्नलिखित कार्य के

कार्य पूर्ण होने की अवधिः 06 माह। **निविदा बंद होने की तिथिः** 28.09.2020 समय 15:00 बजे।

1. निविदा दिनांक 28.09.2020 को 15:00 बजे बन्द होगी एवं भारतीय रेलवे की ई-टेंडर वेबसाइट

www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। 2. निविदा की सम्पूर्ण जानकारी के लिए भारतीय रेलवे

विशेष प्रतिनिधि

भेजा गया था। तालिबानी आतंकी कैंप

लिए ऑनलाइन (ई-टेंडर) आमंत्रित करते हैं।

की ई-टेंडर वेबसाइट www.ireps.gov.in को देखें।

कार्य का नाम

वैगन मरम्मत कारखाना झांसी में

ईओटी क्रेन की क्रैब पूर्ण (क्रॉस ट्रॉली

निविदा सं.: JHSW-MNP-20-07

निविदा संख्या

उन्होंने कहा कि अमीर

उर्दू में उत्कृष्ट लेखन करने वालों के राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में उर्दू परिषद के बजट में दो गुणा से अधिक वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज सोशल मीडिया की ताकत बढ़ गई है, ऐसे में जो सच है और अच्छा है, उसे पूरी ताकत से सामने रखने की जरूरत

> उन्होंने कहा कि इस स्थिति में कलमकारों का दायित्व है कि वे पूरी ताकत और तन्मयता के साथ सुविचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं निशंक ने कहा कि अगर सोशल मीडिया पर कलमकार एवं अच्छी सोच वाले लोग कोई स्थान (गैप) छोड़ देंगे तो यह उन लोगों के पास चला जायेगा जो पीढी को बर्बाद कर

की भूमिका सामने आई है।

यही नहीं जांच के दौरान

गिरफ्तार की गई अकेली महिला इंशा

जान इस हमले के मास्टरमाइंड

फारूक की करीबी थी। उसने हर

संभव तरीके से अपने साथी

आतंकियों की सहायता की थी

एनआईए द्वारा फाइल की गई

चार्जशीट में दावा किया गया है

कि23वर्षीय इंशा जान मार्च में

सुरक्षाबलों द्वारा कश्मीर में मारे गए

पाकिस्तानी बम बनाने वाले मुख्य

साजिशकर्ता मोहम्मद उमर फारूक

की साथी थी। वह उसके साथ फोन

और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म

के माध्यम से संपर्क में थी।एनआईए

के अनुसार इंशा जान के पिता तारिक

पीर को भी फारूक और उसके संबंधों

अमित शाह की

हालत में सुधार

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में

पिछले दिनों भर्ती कराये गये केंद्रीय गृह

मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य में सुधार

हो रहा है। सूत्रों ने यूनीवार्ता को बताया

कि श्री शाह का स्वास्थ्य अब पहले से

ठीक है और उसमें धीरे-धीरे सुधार हो

रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि

अगर श्री शाह के स्वास्थ्य में इसी गति

से सुधार होता रहा तो उन्हें अस्पताल

से जल्द ही छुट्टी दे दी जायेगी।

गौरतलब है कि दो अगस्त को कोरोना

जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद श्री

शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल

में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें

14 अगस्त को छुट्टी मिली थी। कोरोना

संग्रमण मुक्त होने के बाद हुई स्वास्थ्य

संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें 17

अगस्त की रात को एम्स में भर्ती

कोरोना के टीके के लिए

सरकार की कोई तैयारी नहीं

होना खतरनाकः राहल

पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में

कोरोना वायरस के टीके तक पहंच के

लिए उचित और समग्र रणनीति के

कोई संकेत नहीं मिलने और सरकार

की ओर से कोई तैयारी नहीं होने का

आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को

कहा कि ऐसा होना खतरनाक है।

उन्होंने ट्वीट किया, कोविड के टीके

तक पहुंच की एक उचित और समग्र

रेगानीति अब तक बन जानी चाहिए थी।

लेकिन अब तक इसके कोई संकेत

नहीं मिले हैं। भारत सरकार की कोई

तैयारी नहीं होना खतरनाक है। कुछ

दिन पहले कांग्रेस नेता ने कहा था कि

सरकार को कोरोना वायरस के टीके

के इस्तेमाल, इसके वितरण की

व्यवस्था पर अभी से काम करना

चाहिए। गौरतलब है कि देश में एक

दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड

75,760 मामले सामने आने के बाद

बृहस्पतिवार को मरीजों की कुल संख्या

33,10,234 हो गई। मृतक संख्या

नई दिल्ली, (वीअ)। कांग्रेस के

कराया गया था।

नई दिल्ली (वार्ता) अखिल

के बारे में पता था।

को लीक करने से बचें : नायडू

विशेष प्रतिनिधि नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों से कहा कि वे समिति की बैठकों से जुडी गोपनीय सूचनाएं मीडिया के उपलब्ध कराने से बचें। संसदीय समितियों के अध्यक्षों को लिखे पत्र में नायडू ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि मीडिया समिति की कार्यवाही के दौरान विचार किये गए विषयों या विधेयकों से जुड़ी बातों को रिपोर्ट में

उद्धृत करती है। क्या आप इस बात से अवगत है कि समिति की बैठकें गोपनीय होती है। समिति के सदस्यों या कार्यवाही से जुड़े किसी को भी इस बात की अनुमित नहीं होती है कि वह कार्यवाही, किसी रिपोर्ट का हिस्सा या समिति के निष्कर्ष से जुड़ी सूचना मीडिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदान करे जब तक कि रिपोर्ट सदन

यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ ही दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा ही एक पत्र संसदीय समितियों के अध्यक्षों को लिखा था और उनसे समिति की बैठकों की गोपनीयता सुनिश्चित करने को कहा था। नायडु ने मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी समिति से जुड़े सदस्यों और कार्यवाही से जुड़े लोगों को गोपनीयता से जुड़े वर्तमान प्रावधानानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहें और जब तक रिपोर्ट सदन में पेश नहीं होती है तब तक मीडिया को कोई सुचना देने से बचे। इस पत्र का ऐसे समय में महत्व काफी बढ़ गया है जब लोक लेखा समिति

नायडू ने अपने पत्र में कहा, (पीएसी) और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और समिति में भाजपा के सदस्यों के बीच विचार के लिये विषयों के चयन के मुद्दे में प्रस्तुत नहीं हो गई हो। ऐसा कोई पर नोकझोंक की स्थिति रही हैं।

एलओसी पर घुसपैठ नाकाम करने पर यूं मनाई जाती है खुशी

सुरेश एस डुग्गर

जम्म्। वे आ रहे हैं। तीन हैं। आने दो। कोई फायर नहीं करेगा। किलिंग एरिया में आने दो फिर फायर किया जाएगा। वे फेंसिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तीनों की पीठ पर सामान भी है। अगली चौकी को खबर कर दो। कोशिश करना जिन्दा हाथ आ जाएं

इसरायली राडार पर नजर लगाए सैनिक अधिकारी लगातार साथ ही में अपने जवानों को निर्देश दिए जा रहा था। वह एलएसी के लम्बीबारी इलाके में पाकिस्तान से इस ओर आने की कोशिश कर रहे तीन आतंकवादियों पर नजर रखे हुए था।

हालांकि शाम का धुंधलका होने के कारण सेंसर तथा राडार घुसपैठियों की स्पष्ट तस्वीर तो पेश नहीं कर पा रहे थे लेकिन वे इतना जरूर बता रहे थे कि हाथों में हथियार तथा पीठ पर थैले उठाए इस ओर आने की कोशिश करने वाले आतंकवादी ही हो सकते हैं। यह सिलसिला कोई दस मिनट या एक घंटा नहीं चला था। लगातार छह घंटों तक इन तीन आतंकवादियों पर इस राडार से नजर रखी गई थी और उनकी छवि को पाने के लिए थर्मल

सांसद संजय जाधव

ने दिया शिवसेना से

इस्तीफा

परभणी से सांसद शिवसेनासंजय जाधव

ने लोकसभा की सदस्यता से यह कहते

हुए अपना इस्तीफा दे दिया कि वह

अपने क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के

साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।जाधव ने

पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री

उद्धव ठाकरे को अपना त्याग पत्र भेज

उन्होंने कहा, ठअगर मैं अपने क्षेत्र में

शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ न्याय

करने में असमर्थ हूं, तो मुझे पार्टी का

सांसद होने का कोई अधिकार नहीं है।

इसलिए, कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार

जिले में जिंदूर कृषि उपज बाजार

समिति (एपीएमसी) के गैर-सरकारी

प्रशासक की नियुक्ति से नाखुश थे।

उन्होंने कहा, ठमैं पिछले 8-10 महीनों

से इस मामले को देख रहा हूं।अब

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (यइ)के एक

व्यक्ति को गैर-सरकारी प्रशासक के

रूप में नियुक्त किया गया है और यह

शिवसेना कार्यकर्ताओं का अपमान है।

आपको बता दें कि सांसदसंजय

जाधवकृषि और किसान कल्याण

मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति के

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27.08.2020

जाधव ने कहा कि वह परभनी

शिवसेना प्रमुख को लिखी चिट्ठी में

दिया है।

करें।ठ

सदस्य हैं।

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के

तीनों ही आतंकवादी उस तारबंदी की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ रहे थे जिसे पार कर उन्हें भारतीय क्षेत्र में

उनके कदम इतनी आहिस्ता पड रहे कि एक किमी का सफर उन्होंने छह घंटों में पुरा किया था।फिर जब वे तारबंदी के करीब पहुंचे तो अचानक निर्देश हुआ-फायर। गोलियों तथा हथगोलों की बरसात उन पर आरंभ हो गई थी। ऐसा करना जवानों की इसलिए थी क्योंकि आत्मसमर्पण करने की घोषणा लाउडस्पीकरों पर सुनने के बावजूद उन्होंने उसे अनसुना कर वापस भागना आरंभ कर दिया था।

गोलीबारी दोनों तरफ से तेज हो चुकी थी। आतंकवादी किलिंग एरिया में आ चुके थे। तकरीबन एक घंटा तक फिर मुठभेड़ चली तो तीनों की मौत हो चुकी थी। तीनों की मौत के साथ ही वो मारा और हिप-हिप हुर्रे के स्वर सुनाई देते थे। मात्र तीन आतंकवादियों को मार गिराने के साथ ही सैनिकों का कार्य समाप्त नहीं हो

440

सुरेश एस डुग्गर

जम्मू। पुलवामा हमले की जो परतें एनआईए ने खोली हैं वह कई चौंकाने वाले रहस्योदघाटन कर रही हैं। अगर इन रहस्योदघाटनों के मुताबिक जम्मू बार्डर का इस्तेमाल पुलवामा और कई हमलों के लिए इस्तेमाल हुआ था तो पहली बार किसी हमले के लिए महिला आतंकी का भी इस्तेमाल हुआ था।

पुलवामा हमले में डेढ़ साल बाद एनआईए की ओर से दायर चार्जशीट में आतंकी उमर फारूक के जम्मु-कठुआ बार्डर से प्रदेश में घुसने का जिन किया गया है। इस खुलासे से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। एनआईए की जांच साफ कहती है कि सांबा कठुआ बार्डर को सीमापार से आतंकी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ढाल बनाकर बड़े हमलों को

अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ पुलवामा हमला ही नहीं,ऐसे कई हमले हैं,जिसकी जांच करने के बाद एनआईए ने साफ

Late Sh. Roopa R/o H. No. 102, St 8, Garhi, East of Kailash, New Dell 10065, has disowned/debarred his so amely Mr. Prakash Baisoya and his wif amely Smt. Deepmala from al his movabl and immovable properties/assets/busines and severed all relations with them due t eir misbehavior/misconduct towards n ent, if anybody deals with them in nner will do so at his/their own risk an ponsibility, my client shall not b ponsible for the same. Jagat Singh Baast

Advocate), Chamber No.103, Lawyer ock. Saket Court. New Delhi-110017 **Public Notice** My clients Smt. Rajbala Yadav W/o Skalwant Singh, Vikas Yadav, Vive aday and Vipul Yaday all sons of Sh Balwant Singh all R/o F-159, Gali No.36 Badh Nagar-II, Palam Colony, New Delhi-110045 have severed all their relations with their husband/father Sh

at his/her own risks, costs My client

alwant Singh due to his bad acts.

ybody deals with him, he/she shall d

दिवियम गोयल सुपुत्र मनोज कुमार hall not be liable or responsible for th गोयल, निवासी E-30 मानसरोवर पार्क ame in any manner. ai Dev Solanki, Advocate, Ch. No. 847 कार्यालय प्रधानाचार्य, पं. दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरू

ई-निविदा आमंत्रण सूचनाः 06/2020-21 (UBN-MCC2021GLRC00002) पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरू में कोविड लैब हेतु Real Time PCR Kit के उपाप-त वार्षिक दर संविदा के इच्छक जो RTPP Rules-2013 के अनुसार विनिर्दिष्टत पंजीकृत अनुभवी व . ।दुढ वित्तीय स्थिति वाले बोलीदाता/संवेदक हो से दो रूपों में बोली प्रस्ताव यथा तकनीकी बोली प्रस्ताव एव ... ात्तीय बोली प्रस्ताव द्वारा निविदाएं आमंत्रित है। जिसकी अनुमानित लागत, निविदा शुल्क व अमानत राशि नेविदा प्रस्तुत करने/तकनीकी निविदा खोलने तथा मूल/अन्य प्रपत्र आदि जमा कराने की तिथि व समय सहित नेविदा व निविदा की शर्तें इत्यादि सम्पूर्ण विवरण पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in तथ

nttp://www.education.rajasthan.gov.in/mcchuru पर अवलोकन हेतु अपलोड है।

Website: www.education.rajasthan.gov.in/mcchuru Email:- principal.mc.churu@rajasthan.gov.in Phone: 01562-251888

तमांक:- मेडिकल कॉलेज/लेखा/निविदा/कोविड लैब-19/2020/1512 विनांक: 19.08.2020

प्रधानाचार पं.दीनदयाल उपाध्याय, मेडिकल कॉलेज, चूरू DIPR/C/6593/2020

कहा कि हमला करने वाले आतंकी जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही सांबा कठुआ बार्डर से घुसे थे। है,परत दर परत कई खुलासे सामने हालांकि बीएसएफ अंतरराष्ट्रीय सीमा आ रहे हैं। दिल दहला देने वाला यह से घुसपैठ की बात को नकारती रही हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठन है,लेकिन ज्यादातर हमलों को अंजाम जैश-ए-मोहम्मद की एक सोची समझी देने वाले आतंकी सांबा और कठुआ साजिश थी,जिसका ताना-बाना हमले बार्डर से ही घुसपैठ करने में कामयाब से दो साल पहले से ही बुना जा चुका रहे।पुलवामा हमले को लेकर जैसे-था।इसके लिए बाकायदा आतंकियों

पुलवामा हमला : घुसपैठ के लिए जम्मू बार्डर का हुआ था इस्तेमाल

सार्वजनिक सूचना पर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि मेरे विक्कल श्री कल्लू मलिक पुत्र श्री सक्को मलि त्रासी मकान नं. बी-26, गली नं. 3, खसरा नं. 602 ालन गार्डन, गांव सभापुर, शाहदरा, दिल्ली-11009 अपने जबेर मलिक व उसकी पत्नी अफसाना व उनके गलत दर्व्यवहार व आचरण के कारण अपनी च । अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हुए समस्त रिश्ते न माप्त कर लिया है। मेरे मवक्किल व उसके अ रिवारजन का उससे कोई लेना-देना नहीं होगा, उसवे ए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। **मुकेश चन्द्र जै**न अधिवक्ता, चै. नं. टी-25, नियर तहसीत बेल्डिंग, तीस हजारी कोर्ट्स, दिल्ली-110054.

Public Notice My clients Smt. Pushpa Devi W/o Lt Sh Bhogilal R/o H-No-C-1/638. Gal No. 22, Harsh Vihar Delhi-93, hav evered all relation and disowne heir son Neeru and his wife Poois and their child Radha, from all the novable and immovable propertie ue to their misbehave/misconduc our client shall not be responsible for their act.

K.D. Soni, Advocate, Office: F-713 F-Block, 7th Floor, Karkardoom ourts, Delhi-110032.

In The Court of Sh. Arvind Bansal, ACJ/CCJ/ARC-(S.E.). Room No. 203, Saket Court Complex, New Delhi. Suit No. SS-43/2020

Devi Singh (9654505904) S/o Late Desh Raj, R/o F1/2 Type-2, Block-F. Police Colony, Andrews Ganj, South Delhi, New Delhi Age-63 years.Applicant.

Versus 1. The State NCT of Delhi. through SDM, Hauz Khas

Road, Saket New

Delhi-110068. hauzkhassdm Contact 29532310, 9958602884. **(2)** Pooja Rawal Smt. (9999497022) D/o Shri Devi Singh W/o Shri Jogender Singh R/o R 3/6, Police Colony, Andrews Ganj, south Delhi, Andrews Ganj, South Delhi, New Delhi. (3) Rajeev Rawal (9899884780) S/o Sh. Devi Singh, R/o H No. F-1/2, Police Colony Andrews Ganj, South Delhi New Delhi. (4). Smt. Ruby Rawal (9811673514), D/o Sh. Devi Singh W/o Balkar Singh, R/o F-1/2, Block-F Police Colony, Andrews Ganj, New Delhi. (5). Robit (8898889886. Rawal, 9654522801), S/o Sh. Dev Singh, R/o F-1/2, Block-F Police Colony, Andrews Ganj, New Delhi. (6). The Sub-Post Master, HSG2, Andrews Ganj Post Office South Delhi, New Delhi-110049. Contact No

indiapost.gov.inRespondents. Whereas,on application under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made byDevi SinghSuccessor of Late Smt Kanti Devi W/o Devi Singhfor grant of succession Certificate in respect of debt/Securities of deceased And whereas the said applicant shall come for hearing on **05.10.2020 at**

09582312347, Pmagj-dl@

10.00 A.M. Therefore, the public at large s hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant, he may appear and file objection in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time.

Given under my hand and seal on 24th day of August, 2020.

ACJ-cum-CCJcum-ARC-(S.E.) Saket Court Complex, New Delhi.

लापता महिला की तलाश सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह महिला



f North central railways

जिसका नामः तन्तु साथ में बेटा दीपान्शु (उम्रः 1 साल), पतिः दीपक पताः झुग्गी नं. ४, एम–ब्लॉक, कैम्प–3, नॉगलोई, दिल्ली, उम्रः 19 साल, कदः 5 फीट 3 इंच, रंगः गेहुआँ, चेहराः गोल, पहनावाः हरे रंग की सूट—सलवार व काले रंग की चप्पल पहने हुए है, जो दिनांक 19.05.2020 को थाना क्षेत्र नाँगलोई से

इस संदर्भ में DD No.122-A, दिनांक 08.06.2020, थाना नाँगलोई, दिल्ली में दर्जहै।

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस लापता महिला के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस महिला के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें। थाना प्रभारी : cic@cbi.gov.in

थाना नाँगलोई, दिल्ली वेबसाइट : http://cbi.nic.in फोनः 011-25949470, 25947225 : 011-24368639 DP/249/OD/2020 दूरभाष : 011-24368638, 24368641

गुमशुदा लड़की की तलाश



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह लड़की जिसका नामः सविता, पुत्रः श्री भुवनेश्वर, पताः झुग्गी नं. 37, आर.पी.एफ लाईन, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, दिल्ली उम्रः 19 साल, कदः 5 फीट 4 इंच, रंगः गोरा, चेहराः गोल, पहनावाः ग्रे रंग का सूट, नीले रंग की सलवार व काले रंग की चप्पल पहने हुए, जो दिनांक 27.01.2020 को थाना क्षेत्र सराय रोहिल्ला से लापता हो गयी है।

इस संदर्भ में DD No. 38A, दिनांक 28.01.2020, थाना सराय रोहिल्ला, दिल्ली

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अबतक इस लापता लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

: cic@cbi.gov.in र्वेबसाइट : http://cbi.nic.in : 011-24368639 ′दूरम्<mark>ग</mark>ाष : 011-24368638, 24368641

STL GLOBAL LIMITED

थाना प्रभारी

DP/480/N/2020

थाना सराय रोहिल्ला, दिल्ली

फोनः 011-23691106, 23691106

CIN: L51909DL1997PLC088667 Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1

STL Global First Floor, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065
Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com, Website: www.stl-global.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING

Nace: Faridabad

ate: 27.08.2020

Notice is hereby given that the 23"Annual General Meeting of the Comp (23" AGM) will be convened on Tuesday, 29" September, 2020 at 10:00 A.M. IST through Video conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) Facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rule framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 read with the General Circular Nos, 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the SEBI (SEBI Circular), without the physical presence of the Members at a common venue

The Notice of the 23rd AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 including the financial statements for the year ended 31st March, 2020 will be sen only by email to all those members, whose email addresses are registered with the company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the above-mentioned MCA Circular/s and the SEBI Circular Members can join and participate in the 23rdAGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the 23"AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 23"AGM are provided in the Notice of 23"AGM. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. The Notice of the 23" AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.stl-global.com and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. And on the website of NSE at www.nseindia.com respectively in due course.

Members holding shares in physical form who haven't registered their ema addresses with the Company/Depository can obtain Notice of the 23td AGM, Annual Report and/or login details for joining the 23td AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to investors@stl-global.com:

a) A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address b) self attested scanned copy of PAN Card; and

c) self attested scanned copy of any document (such as AADHAR CARD, Driving License, Election ID Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the company. Members holding shares in demat mode are requested to update their email address.

Electronic Bank Mandate with their respective Depository. he above-mentionedinformation is being issued for the information and benefit of a mbers of the company and is in the compliance with the MCA circulars/ SEBI Circular.

By order of the Board For STL GLOBAL LIMITED

Saniiv Kumar Aggarwal

(Whole Time Director

DIN: 0022725

कांग्रेस के नेता कुणाल घोष से प्छताछ

ब्यूरो (सीबीआई) ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष से पूछताछ की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

घोष को तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया था। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने घोष से बुधवार को पृछताछ की।

की इकाई शारदा मीडिया के सीईओ रहे घोष को चिटफंड घोटाला मामले में कृथित संलिप्तता के लिए 2013 में लिस ने गिरफ्तार किया था।

बढ़कर 60,472 हो गई है। शारदा घोटाला : तृणमूल

उन्होंने बताया कि शारदा समृह

नई दिल्ली, (भाषा)। केन्द्रीय जांच

पार्टी ने लगभग एक महीने पहले

ऐरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड भागावरण : L74899DL1988PLC031510 पंजी. कार्यालय : 1001, 10वां तल, डीएलएफ टावर ए, जासोला, नई दिल्ली-110025 फोन : 011-41686169, फैक्स : 011-26941984

ई—मेल : investorgrievance@arotile.com, वेबसाइट : www.arotile.com 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और दूरस्थ ई-वोटिंग जानकारी

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एग्रो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमेटेड के सदस्यों की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) भारतीय प्रतिमृतियां एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी सरकुलर") द्वारा जारी और सरकुलर नम्बर SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और कम्पनी मामलों का मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए सरकुलर / एस") सामान्य सरकुलर नं. 14 / 2020 (दिनांक 08 अप्रैल 2020), 17 / 2020 (दिनांक 13 अप्रैल 2020), 20 / 2020 (दिनांक 05 मई 2020) और 22 / 2020 (दिनोंक 15 जून 2020) क्रमशः के साथ पठित सेवी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं डिस्क्लोजर आवश्यकताएं) नियमनों 2015 (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 (एक्ट) और उनके तहत बनाये गये नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में ई—एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्टानुसार बिजनेस का सम्पादन करने के लिये वीडियो काफ़ैसिंग (वीसी) / अन्य ऑबियो—विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से 25 सितम्बर 2020 को अप. 12.30 बजे सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना किसी कॉमन स्थल पर आयोजित की जाएगी।

सेवी सरकुतर दिनांक 12 मई 2020 के साथ पठित उक्त सरकुतरों के अनुपालन में. ई-एजीएम की सूचना और 31 मार्च 2020 को समाप्त वितीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रोनिक प्रतियां 25 अगस्त 2020 को सभी सदसयों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी 21 अगस्त 2020 के अनुसार कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (एस) के पास पंजीकृत हैं | कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की मौतिक प्रतियां मेजने की आवश्यकता एमसीए सरकुतर / और सेबी सरकुतर के तहत समाप्त कर दी गई है। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट पर <u>www.arotile.com</u> पर और स्टॉक एक्सचेंजेज अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टोंक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमशः, जहां कम्पनी के शेयर सुवीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्य, जो भौतिक / इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयरघारण करते हैं और उनके ईं–मेल पते कम्पनी / उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, र उनके नाम, पूर्ण पता, फोलियों नं., कम्पनी के साथ धारित शेयरों की संख्या का वर्णन करते हुये सदस्य (१) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की हुई प्रति सहित पैन कार्ड की रब-सत्यापित रकैन की हुई प्रति और निम्नलिखित दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, ब्राईविंग लाइसैंस, निर्वाचन कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल अथवा ई-मेल investorgrievance@arotile.com द्वारा एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 प्राप्त करने हेतु कम्पनी के पास पंजीकृत अनुसार सदस्य के पते प्रमाण

investorgnevance@arollie.com द्वारा एजाएम को सूचना साहत वाषक रिपाट 2019-20 प्राप्त करन हुतु कम्पना क पास पजाकृत अनुनार सदस्य के पत प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज में से किसी एक की ख-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति भेजकर शोघातिशीघ अपने ई—मेल पते पंजीकृत करवाने का आग्रह किया जाता है। डिमेट रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्य अपना ई—मेल पता जनके डिपॉजिटरी पार्टिसिएंट्स के पास अध्यतन करवा सकते हैं। तरीका जिस्सों शेयरधारण कर दूरख ई—वोटिंग के माध्यम से अध्वा एजीएम के समय ई—वोटिंग द्वारा अपना मत दे सकते हैं और वीडियो कांग्रेस (वीसी) / अन्य ऑडियो—विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम में शामिल हो, से सम्बन्धित निर्देश ई—एजीएम की सूचना में निहित हैं। कट—ऑफ तिथि अर्थात 18 सितन्बर 2020 के अनुसार या तो नौतिक रूप में या डिमेटीरियलाइज्ड रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्य सीडीएसएल की इलैक्ट्रोनिक प्रणातियों के माध्यम से एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार सामान्य और विशेष बिजनेसिज पर इलैक्ट्रोनिकली अपना मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित

एजीएम की सचना में विनिर्दिष्ट अनसार सामान्य और विशेष बिजनेसिज इलैक्टोनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा : दूरस्थ ई-वोटिंग 22 सितम्बर 2020 को पूर्वा. 10.00 बजे (आईएसटी) प्रारम्भ होगी

दूरस्थ ई-नीटिंग 24 सितान्बर 2020 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी ; इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा अथवा एजीएम में मतदान करने के लिये पात्रता सुनिश्चित करने हेतु कट—ऑफ तिथि 18 सिताबर 2020 है और यदि कोई व्यक्ति जं कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, इस सूचना को केवल जानकारी के प्रयोजन हेतु माने

व्यक्ति, जो ई-एजीएम की सूचना को भेजने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है और कम्पनी के शेयर अर्जन करता है तथा शेयरघारण करता है और मतदान करने के लिये पात्र हैं, एजीएम की सूचना में प्रदान किये गये लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिये प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति ई—वोटिंग हेतु सीडीएसएल के पास पहले से ही पंजीकृत है, मतदान करने के लिये मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है ; सदस्य ध्यान दें कि : ए) दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल मदाना हेतु उपरोक्त तिथिव समय के प्रशास के प्रशास कर विया जाएगा और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिया जाता है तो सदस्य को तदोपरांत इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; बी) सदस्य जो एजीएम से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मत नहीं दे चुके हैं, एजीएम में उपस्थित भी हो सकते हैं परन्तु दोबारा अपना मत देने के हकदार नहीं होंगे ; सी) इलैक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से मतदान हेतु सुविधा एजीएम में उपलब्ध करवाई जाएगी और बी) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट्-ऑफ़ तिथि के अनुसार बिपॉजिटरीज द्वारा गैंनेटेन किये

गये लाभकारी मालिकों के रिजस्टर में अथवा सदस्यों के रिजस्टर में दर्ज है, केवल वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ ई-एजीएम में मतदान का लाम उठाने के हकदार होंगे। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 के अनुसरण में भी सूचना दी जाती है कि वार्षिक सामान्य बैठक की

वजह से सदसयों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार 21 सितम्बर 2020 से शुक्रवार 25 सितम्बर 2020 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे। यदि ई—वोटिंग प्रणाली से ई—वोटिंग और ई—एजीएम में उपस्थित रहने के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा मुद्दा है तो आप बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूएस") और हैन्य सैक्शन के तहत <u>www.evotingindia.com</u> पर उपलब्ध ई—वोटिंग मैनुअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई—मेल लिखे अथवा श्री नितिन कुंदर (022-23058738) अथवा श्री महबूब लखानी (022-23058543) अथवा श्री सकेश दलवी (022-23058542) से सम्पर्क करें। इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा मतदान हेतु सुविधा से सम्बन्धित समी शिकायते श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए—विंग, 25वां तल, मैराधन प्रयूचरैक्स, मुफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग लोअर पैरेल, मुन्बई—400013 के पते पर भेजे अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल भेजे अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें।

कृते ऐरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सब्यसाची पाणिग्रही कम्पनी सेक्रेटरी